

मैनेजमेंट फंडा

एन. रघुरामन, मैनेजमेंट ग्रुप [raghu@dbc.org.in]



पुलिस गलत कामों को रोकने के लिए है या जुर्माना वसूलने के लिए?

होली के बाद सुरेश चंद्र पाराशर- जो तीन महीने पहले ही 80 वर्ष के हुए हैं- मध्य प्रदेश के हर्दा जिले के टिमरनी के मुख्य मार्ग पर स्थित एक छोटे-से सुपर मार्केट से कुछ सामान खरीदकर अपने स्कूटर से घर लौट रहे थे। उनकी उम्र के लोग और खास तौर पर भूमि-स्वामी शायद ही कभी स्कूटर से यात्रा करते हैं। इस इलाके में अमीर किसान रहते हैं, जो एक से ज्यादा चौपटिया वाहनों के मालिक होने के लिए जाने जाते हैं। शायद यही वजह है कि सिग्नल का इंजार करते समय पाराशर ने एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी का ध्यान अपनी ओर खींचा। पुलिसकर्मी ने उनसे कागजात मांगे, जो पाराशर ने दे दिए। पुलिसकर्मी ने पाया कि उनका लाइसेंस सालों पहले ही एक्सपायर हो चुका था। लेकिन जुर्माना लेने के बजाय पुलिसकर्मी ने उनसे पूछा कि इस उम्र में स्कूटर चलाने की उनकी क्या मजबूरी है? पाराशर ने बताया कि दो साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्हें घर के काम करना पड़ते हैं। इसके अलावा, टिमरनी में होम-डिलीवरी की सुविधा नहीं है। चूंकि स्कूटर को आसानी से पार्क किया जा सकता है, इसलिए वे इसे प्राथमिकता देते हैं। पुलिसकर्मी ने उन्हें सलाह दी कि इस उम्र में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और सुबह या शाम को टहलने के लिए जाते समय सीमित मात्रा में किराने का सामान खरीदते रहना चाहिए। इसके अलावा पुलिसकर्मी ने- जो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते हैं- पाराशर को अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि अगर उन्हें किराने के किसी भी सामान की तत्काल आवश्यकता हो, तो वे उन्हें फोन कर सकते हैं। उन पुलिसकर्मी ने कहा कि ऐसा करके मुझे लगेगा मैंने अपने बड़े पिता की मदद की है। तब से पाराशर घर के आस-पास एक या दो किमी से अधिक वाहन नहीं चलाते हैं।

BCom
Reasonable Fee
High Job oriented Industries
International Accounting & Fin.
Accounting & Taxation
Banking & Insurance
Financial Market
Digital Business
पविष्कार कॉलेज
(ऑटोनोमस) जयपुर
88750 08931

मुझे यह घटना तब याद हो आई, जब मैंने हाल ही में भोपाल की सड़कों पर रात 10 बजे कई ट्रैफिक पुलिसकर्मीयों को देखा। मुझे लगा कि देर रात को भी ट्रैफिक दोगना हो गया था, इसलिए विभाग को सड़कों पर ट्रैफिक कॉन्ट्रोलों को तैनात करना पड़ा। बाद में मुझे बताया गया कि चूंकि पूरे उत्तर भारत में हीटवेव चल रही थी, इसलिए बहुत-से लोग दिन के समय बाहर नहीं निकल रहे थे और ज्यादातर गतिविधियां सूर्यास्त के बाद हो रही थीं। लेकिन यह केवल आधा सच था। मैंने एक बच्चे को देखा, जो एक छोटी गली से निकलकर मुख्य सड़क पर कोने की दुकान पर आधा लीटर दूध लेने आया था। वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने उससे दस्तावेज दिखाने को कहा। जब बच्चे ने उन्हें अपने मोबाइल फोन पर लाइसेंस और दस्तावेज दिखाए तो उन्होंने हेलमेट न पहनने के लिए उसका चालान काट दिया। बच्चे ने जुर्माना भरा और निराश लौट गया। मैं वहीं खड़ा था और एक सहकर्मी के साथ कुछ चर्चा कर रहा था। मैंने देखा कि उसके बाद बच्चे के पिता उसी स्कूटर पर हेलमेट पहने दूध खरीदने के लिए आ रहे थे। उन्होंने पुलिस वालों से कहा, 'बरसात में जब सड़कों पर गड़बड़ हो जाएगी और छोटी गलियों में भी यातायात बढ़त हो जाएगी तब मैं देखूंगा कि आप लोग कहां पर होंगे। आपको शहर को नागरिकों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक को नियंत्रित करना चाहिए और बच्चों को नियमों का पालन करने के लिए समझाना चाहिए या रात 10 बजे पेड़ के पीछे छिपकर जुर्माना वसूलना चाहिए? जितना ज्यादा आप वसूली पर ध्यान देंगे, उतना ही ज्यादा लोग आपसे नफरत करेंगे।'

फंडा यह है कि जब कोई महत्वपूर्ण काम मूल जिम्मेदारी (इस मामले में अनुशासन लाना) से हटकर सरकारी खजाने के लिए धन इकट्ठा करने में बदल जाता है, तो उसकी चमक खत्म हो जाती है।

दैनिक भास्कर एप पर मैनेजमेंट फंडा बाय एन. रघुरामन का वीडियो देखने के लिए QR कोड को स्कैन करें। आज का शीर्षक है: "स्पोर्ट्स बनाता है अरबों एम्प्लॉई या स्टूडेंट: फिजिकली एक्टिव रहने की आदत डालें"

राजस्थान आवासन मण्डल
क्रमांक-1/1(4)कार्मिक/2024/642 दिनांक - 13.06.2024
:: अधिसूचना ::
माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर में दायर याचिका संख्या 16643/2023 (नरेश कुमार बनाम राजस्थान आवासन मण्डल व अन्य समान 12 रिट याचिकाओं) में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2024 को पारित निर्णय की अनुपालना में राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती-2023 के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा के उपरान्त दिनांक 01.10.2023 को अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु जारी अस्थाई विचारित सूची को प्रत्याहारित (withdraw) की जाती है।
राज.सं.बा.व/सी/24/646 सचिव

नाहरगढ़ जैविक उद्यान; वन मंत्री के निरीक्षण में मिली खामियां, जानवरों के खाने का समय 11 बजे, लेकिन मिलता है 1 बजे, 29 में से 19 कार्मिक मिले अनुपस्थित

निजी गाड़ी पर लिखवाया भारत सरकार, काम-मांस सप्लाई



जयपुर | नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बाघों के लिए कुछ खास काम कर वाहवाही लूटने वाले वन विभाग के अधिकारियों की गुफवार को पोल खुल गई। वन मंत्री संजय शर्मा के अचानक किए गए निरीक्षण में कहीं धांधली सामने आई तो कहीं कर्मचारियों की कमी दिखी। अब मंत्री ने मामलों में भले ही कार्रवाई नहीं की, लेकिन अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर-शेर आदि जानवरों को खाना सुबह 11 बजे दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन यहां दोपहर एक से दो बजे के बीच खाना दिया जाता है। मंत्री संजय शर्मा ने भारत सरकार लिखी गाड़ी को जब रकवाया तो पता चला कि उसमें जानवरों के लिए मांस ले जाया जा रहा था। पूछने पर उसने कहा कि वह रोजाना इसी समय ले जाता है। सामने आया कि मांस की क्वालिटी बेहद खराब थी और उसकी जांच भी नहीं की जा रही थी। यहां तक कि गाड़ी पर नियमों विरुद्ध भारत सरकार लिखा गया। 29 में से 19 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। वहीं उद्यान में तीन जगह जांच का नियम है, लेकिन सिर्फ एक जगह पर्यटकों की औपचारिक जांच की जाती है। सूचना केंद्र पर कोई कर्मचारी नहीं मिला। ये भी मिली कमियां: पर्यटकों को लाने के लिए दो ही गोलफ कार्ट हैं और वह भी एक कई महीनों से खराब है। यहां 10 से अधिक गाड़ियों की जरूरत है। ई-रिक्शा के ड्राइवरों का पुलिस वेरीफिकेशन ही नहीं है और पर्यटकों और जानवरों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है।

जयपुर रेलवे ने यात्रीभार को देखते हुए 4 ट्रेनों में 4 जनरल कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की है। भिवानी-मथुरा-भिवानी में 17 जून से 1 जुलाई तक, मथुरा-सवाईमाधोपुर- मथुरा में 17 जून से 1 जुलाई तक और दो अन्य ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए हैं।

4 ट्रेनों में बढ़ाए 4 जनरल कोच

जयपुर रेलवे ने यात्रीभार को देखते हुए 4 ट्रेनों में 4 जनरल कोच की अस्थाई बढ़ोतरी की है। भिवानी-मथुरा-भिवानी में 17 जून से 1 जुलाई तक, मथुरा-सवाईमाधोपुर- मथुरा में 17 जून से 1 जुलाई तक और दो अन्य ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए हैं।

Office of Chief Medical & Health Officer, Sikar
NHM/2024-25/92 Date: 07/06/2024
Notice Inviting E-Bid No. 01
E-Bids are Invited for Rate Contract for Human Resource for the Financial year 2024-25 & 2025-26 from interested bidders upto 06.00 pm dated 27-06-2024. Other Particulars of the bid may be visited on the state procurement portal (http://sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in) and notice board of this office.
NIB No. - MHS2425A0098, UBN No.- MHS2425SLRC00134
Chief Medical & Health Officer
DIPR/C/4064/24 Sikar

SHRI VISHWAKARMA SKILL UNIVERSITY
(1st Government Skill University of India, set up by the Government of Haryana)
Admission Open for Academic Session -2024-25
सीखो कमाओ और अपनी पहचान बनाओ

Skill Faculty of Management Studies & Research	Skill Faculty of Engineering & Technology	Skill Faculty of Applied Science & Humanities	Skill Faculty of Agriculture
<ul style="list-style-type: none"> Diploma of Vocation : Office Management Undergraduate Certificate in Food Production & Traditional Sweets Undergraduate Diploma in Airlines Management Bachelor of Vocation : Management (Financial Services) BBA - BPM and Analytics(Hons./ Hons. With Research)* BBA (Retail Management)* Bachelor of Hotel Management B.Com. (Hons./Hons. with Research) M.Voc.-Management Banking & Finance M.Voc.-Management (HRM) MBA* MBA Business Analytics* Executive MBA MBA (Working Professional) 	<ul style="list-style-type: none"> Diploma of Vocation : Mechanical Manufacturing Diploma of Vocation : Industrial Electronics Diploma of Vocation : Draughtsmanship (Civil) Diploma in Computer Engineering* Diploma in Mechanical Engineering (Tool & Die)* Diploma in Computer Generative AI / Cyber Security Bachelor of Vocation : Solar Technology Bachelor of Vocation : Mechanical Manufacturing* Bachelor of Vocation : Robotics and Automation* Bachelor of Vocation : Mechatronics* Bachelor of Technology : Computer Science Engineering (AI & ML)* Bachelor of Technology : Computer Engineering* Bachelor of Technology : Mechanical and Smart Manufacturing* Bachelor of Technology : Electrical Engineering* Master of Technology : Robotics and Automation* Undergraduate Diploma in Interior Design 	<ul style="list-style-type: none"> Undergraduate Certificate inMusic (Folk Art - Banchari/Instrumental/Vocal) Undergraduate Certificate in Japanese Language Undergraduate Certificate in German Language Undergraduate Certificate in Graphics and communication Design Bachelor of Vocation : Medical Laboratory Technology Bachelor of Vocation : Public Services B.Sc. (Yoga & Spiritual Science) B. Sc. (Clinical Psychology) PG Diploma Criminal Forensics PG Diploma Public Policy M.Sc. MLT Microbiology M.Sc. Clinical Psychology M.Sc. (Geo-Informatics) M Phil Clinical Psychology 	<ul style="list-style-type: none"> Diploma in Vocation : Horticulture Bachelor of Vocation : Agriculture Master of Vocation : Agriculture

*** Approved by AICTE, Govt. of India**

Key Highlights : Earn While Learn Model

On-the-Job Training (OJT)	Multiple Entry and Exit Options	Industry Oriented Programmes
High Placement Rate	State of the Art infrastructure	Entrepreneurship Skills

Campus : Village Dudhola, District Palwal (Haryana) Pincode - 121102
Transit Campus : Vishwakarma Bhawan, Plot No. 147, Sector 44, Gurugram, Haryana
Email:admissions@svsu.ac.in

8708568908, 9306095464
9253394547, 9253364547

कौशल भारत - कुशल भारत

www.svsu.ac.in

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भुविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक: नि/ अ.ख. 3. नीलामी / निलामी (ML III) / 2024 / ई-06918
ई-नीलामी विज्ञापित
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अधिनियम खनिज रियायत निरमावली, 2017 के अध्याय-III के तहत विभाग के अधिनियम खनिजों के खननपट्टों के आवंटन के लिए 95 प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खुली बोली आमंत्रित की जाती है। संबंधित विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	जिला	ग्राम (तहसील)	खनिज	कुल प्लॉट
1	जैसलमेर	लोडवा (जैसलमेर)	मैसेनी स्टोन	9
2	बांसीपुर	मवडी (भिवाना)	मैसेनी स्टोन	2
3	जालौर	किशनगढ़, मुल्ता, मेहरापुर (भांडानुन)	मैसेनी स्टोन	9
4	राजसमेर	मारेचों का गुड़ा (कुम्हलगढ़)	मैसेनी स्टोन	5
5	भीलवाड़ा	आमरवा (करंडा)	क्वार्टज फेल्सपार	1
6	समुद्रगढ़	बड़ली का चौक (सासीडिया)	क्वार्टज फेल्सपार	4
7	भीलवाड़ा	कराणा (आसीर)	मैसेनी स्टोन	3
8	नीमकायाना	मोकलवास (नीमकायाना)	मैसेनी स्टोन	8
9	जोधपुर (ग्रामीण)	विजयनगर (बांसीर)	सिंगरस्टोन	10
10	डींग	बासवुजा (सैकरी)	मैसेनी स्टोन	12
11	राजसमेर	हेलाणा (आमेर)	क्वार्टज फेल्सपार व ग्रेनाइट	3
12	नागौर	पालडीयासा (मुण्डवा)	मैसेनी स्टोन	24
13	ब्यावर	गोपालासागर (मसूद)	क्वार्टज फेल्सपार	5

विशेष नोट:-
1. प्लॉटों का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण, ई-ऑफ़र की शर्त विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदाता कंपनी MSTC Ltd की वेबसाइट www.mstccommerce.com पर उपलब्ध है।
(भगवती प्रसाद) IAS निदेशक
DIPR/C/4191/24

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

KRN HEAT EXCHANGERS

(Please scan this QR Code to view the Addendum)

KRN HEAT EXCHANGER AND REFRIGERATION LIMITED

Our Company was incorporated as "KRN HEAT EXCHANGER AND REFRIGERATION PRIVATE LIMITED, a private limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated August 25, 2017, issued by Central Registration Centre, Manesar. Thereafter, our Company was converted from a private limited company to a public limited company, pursuant to a resolution passed in the extraordinary general meeting of our Shareholders held on March 17, 2023, and consequently, the name of our Company was changed to "KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited" by deletion of the word 'Private'. A fresh certificate of incorporation consequent upon conversion from private company to public company dated April 03, 2023, was issued by the Registrar of Companies, Jaipur, Rajasthan to our Company bearing Corporate Identification Number "U29309RJ2017PLC058905". For details of incorporation, change of name and registered office of our company, please refer to chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 228.

Registered & Corporate Office: Plot No. F - 46, 47, 48, 49 EPIP, RIICO Industrial Area, Neemrana, Alwar Rajasthan-301705, India
Tel No.: +91 - 9257025440 | **Email:** cs@krnheatexchanger.com | **Website:** www.krnheatexchanger.com
Contact Person: Mr. Praveen Kumar, Company Secretary and Compliance Officer | **CIN:** U29309RJ2017PLC058905

PROMOTERS OF THE COMPANY: SANTOSH KUMAR YADAV AND ANJU DEVI

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO 1,60,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 10/- PER EQUITY SHARE), AGGREGATING UP TO ₹ 1,60,00,00,000 ("THE ISSUE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE 10% OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, MAY CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT OF UP TO 4,77,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING UP TO ₹ 4,77,00,00,000 ("PRE-IPLO PLACEMENT"). IF THE PRE-IPLO PLACEMENT IS COMPLETED, THE ISSUE SIZE WILL BE REDUCED TO THE EXTENT OF SUCH PRE-IPLO PLACEMENT, SUBJECT TO THE ISSUE COMPLYING WITH RULE 19(2)(b) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED ("SCRR").

ADDENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED MARCH 30, 2024 ("DRHP")
NOTICE TO INVESTORS ("ADDENDUM TO THE DRHP")

This is with further reference to the DRHP dated March 30, 2024, filed by the Company with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the Stock Exchanges. Potential bidders may note the following:
The Company has committed to include "Manohar Lal", presently forming part of the Promoter Group as one of "Promoter of the Issuer Company". Accordingly, the DRHP, including the section titled "Cover Pages", Definition and Abbreviations", "Summary of the Issue Document", "Risk Factors", "Capital Structure", "Promoter and Promoter Group", and "Outstanding Litigation and Material Development" beginning on page 2, 19, 33, 96 and 251 of the DRHP shall stand updated. Further, the DRHP dated March 30, 2024 filed with SEBI and the Stock Exchanges, can be accessed through the link on the website of Holani Consultants Private Limited at www.holaniconsultants.co.in, from the website of KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited at www.krnheatexchanger.com, from the website of Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com and from the website of SEBI at www.sebi.gov.in.
The above addition is to be read in conjunction with the DRHP and accordingly their references in the DRHP stand amended pursuant to this Addendum to the DRHP. The information in this Addendum to the DRHP supplements the DRHP and updates the information in the DRHP, as applicable. However, please note that this Addendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP and the date hereof, and the information included in the DRHP will suitably updated, including to the extent stated in this Addendum to the DRHP, as may be applicable in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the ROC, SEBI and the Stock Exchanges.
All Capitalized terms used in this Addendum to the DRHP shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
HOLANI CONSULTANTS PRIVATE LIMITED 401-405 & 416-418, 4 th Floor, Soni Paris Point, Jai Singh Highway, Bani Park, Jaipur - 302016. Tel.: +91 0141 - 2203996 Website: www.holaniconsultants.co.in Email: ipo@holaniconsultants.co.in Investor Grievance ID: complaints.redressal@holaniconsultants.co.in Contact Person: Mrs. Payal Jain SEBI Registration No.: INMO00012467	BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED Office No. S6-2, 6 th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093 Tel.: +91 22-6263 8200 Fax: +91 22-6263 8299 Website: www.bigshareonline.com Email: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance ID: investor@bigshareonline.com Contact Person: Mr. Babu Raphael C SEBI Registration No.: INR000001385

For KRN HEAT EXCHANGER AND REFRIGERATION LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
CS Praveen Kumar
Date: June 13, 2024
Company Secretary and Compliance Officer

KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an Initial Public Issue of its Equity Shares and has filed the DRHP dated March 30, 2024, with SEBI. The DRHP will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchanges i.e., BSE Ltd at www.bseindia.com and NSE Ltd at www.nseindia.com respectively and is available on the website of the BRLM i.e., Holani Consultants Private Limited at www.holaniconsultants.co.in. The potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, refer to the Section titled "Risk Factors" on page 33 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with the SEBI for making any investment decision. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 33 of the DRHP.
The Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act"), and may not be issued or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being issued and sold outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation under the U.S. Securities Act and applicable laws of the jurisdictions where such issues and sales occur. There will be no public issuing in the United States.

कार्यालय पंचायत समिति, थानागाजी जिला अलवर (राज.)

क्रमांक :- पंसाथा / 2024-25 / टेण्डर / 3487-92 दिनांक :- 11.6.2024
खुली निविदा सूचना 01/2024-25
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंचायत समिति कार्यालय हेतु वर्ष 2024-25 के लिए हडडी ठेका, कृषि भूमि ठेका खुली निलामी एवं निम्नलिखित कार्यों की रजिस्टर्ड फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा निम्न कार्यक्रमानुसार उपस्थित निविदा दाताओं एवं गठित कमेटी के समक्ष खोली जावेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा शुल्क	निविदा फॉर्म बचने की दिनांक	निविदा प्रपत्र जमा कराने की दिनांक
1	टैन्ट व्यवस्था एवं जनरेटर (प.स. एवं नरेगा)	2.00	4000	500	11.06.2024 प्रातः 10.00 बजे	20.06.2024 प्रातः 12.00 बजे
2	स्टेशनरी का कार्य (प.स. एवं नरेगा)	5.00	10000	500	11.06.2024 प्रातः 10.00 बजे	20.06.2024 प्रातः 12.00 बजे
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर - 03, सहायक कर्मचारी - 01 (प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से)	7.00	14000	500	11.06.2024 प्रातः 10.00 बजे	20.06.2024 प्रातः 12.00 बजे
4	फोटो स्टेट कार्य (पं.स. एवं नरेगा)	1.50	3000	500	11.06.2024 प्रातः 10.00 बजे	20.06.2024 प्रातः 12.00 बजे
5	चाय नास्ता व शिविरों में भोजन	6.00	12000	500	11.06.2024 प्रातः 10.00 बजे	20.06.2024 प्रातः 12.00 बजे
6	पंचायत समिति कृषि भूमि ठेका	खुली बोली	5000		20.06.2024 दोपहर 02.00 बजे	
7	पंचायत समिति हड्डी ठेका	खुली बोली	5000		20.06.2024 दोपहर 02.00 बजे	

- हड्डी ठेके तथा कृषि भूमि की अमानत राशि बोली लगाने के निर्धारित समय से पूर्व जमा करानी होगी व ठेके की समस्त राशि उसी दिन जमा करानी होगी।
- निविदा संबंधी शर्तें कार्यालय समय में प्रातः 9:30 से 6:00 बजे तक तथा sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर देखी जा सकती हैं।
- उक्त सीलबंद निविदाएं दिनांक 20.06.2024को दोपहर 03:30 बजे क्रय समिति सदस्यों व उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
- किसी भी निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार पंचायत समिति का होगा। सम्बन्धित बोलीदाता sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से बिड फार्म अपलोड कर प्रस्तुत कर सकता है।

जयप्रकाश प्रजापत, प्रधान विकास अधिकारी पंचायत समिति थानागाजी (अलवर)